



# भारत का राजपत्र The Gazette of India



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 364]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 7, 1979/भाद्रा 16, 1901

No. 364]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 7, 1979/BHADRA 16, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि, स्थाय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1979

का०आ० 518 (घ).—केन्द्रीय सरकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 169 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम—इन नियमों का नाम निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 1979 है।

2. नियम 38 का संशोधन—निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (जिन्हें इसमें आगे उक्त नियम कहा गया है) के नियम 38 में,—

(क) उपनियम (2) में,—

(i) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(ख) उक्त प्रतिपत्र पर उस निर्वाचक के हस्ताक्षर या मंगूटे की छाप अभिप्राप्त करेगा, और”;

(ii) अंत में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु किसी निर्वाचक को कोई मतपत्र तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसने उस मतपत्र के प्रतिपत्र पर अपने हस्ताक्षर न कर दिये हों या मंगूटे की छाप न लगा दी हो।”;

(ख) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(3) नियम 2 के उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, किसी पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह प्रतिपत्र पर निर्वाचक के मंगूटे की छाप को अनुप्रमाणित करे।”

3. नियम 49 का संशोधन—उक्त नियमों के नियम 49 में, उपपैरा (3) के खंड (ज) का लोप किया जाएगा।

4. नियम 55 का संशोधन—उक्त नियमों के नियम 55 में,—

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(1) रिटनिंग आफिसर एक से अधिक मतदान केन्द्रों में उपयोग में लाई गई मतपेटी या मतपेटियों को खुलवा सकेगा और ऐसी पेटी या पेटियों में पाए गए मतपत्रों की माथ-माथ गणना करवा सकेगा।”;

(ख) उपनियम (1क) का लोप किया जाएगा।

5. नियम 56 का संशोधन—उक्त नियमों के नियम 56 में,—

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(1) प्रत्येक मतपेटी से निकाले गए मतपत्र सुविधाजनक बंडलों में रखे जाएंगे और उनकी संवीक्षा की जाएगी।”;

(ख) उपनियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(7) किसी मतदान केन्द्र में उपयोग में लाई गई सभी मतपेटियों में अंतर्विष्ट सब मतपत्रों की गणना खत्म हो जाने के पश्चात्:—

(क) गणना पर्यवेक्षक प्ररूप 16 में, भाग 2 में गणना का फल भरेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा तथा रिटनिंग आफिसर भी उस पर हस्ताक्षर करेगा; और

(ख) रिटनिंग आफिसर प्ररूप 20 में परिणामपत्र में प्रविष्टियां करेगा और विविष्टियां आख्यापित करेगा;”

(ग) अंत में स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा।

6. नियम 57 का संशोधन—उक्त नियमों के नियम 57 में, खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(ख) उस मतदान केन्द्र की विविष्टियां जहाँ मतपत्रों को उपयोग में लाया गया है; और”।

7. नियम 59 का संशोधन—उक्त नियमों के नियम 59 में, नियम 56 के स्थान पर अधिसूचित मतदान केन्द्रों के संबंध में लागू नियम 56क के उपनियम (7) के खंड (क) में, “प्ररूप 16क” शब्द, अंकों और अक्षर के स्थान पर “प्ररूप 16” शब्द और अंक रखे जाएंगे।

8. प्ररूप 16 का प्रतिस्थापन—उक्त नियम के साथ संलग्न प्ररूप 16 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:—

“प्ररूप 16

[नियम 45, 56(7) और 56क(7) देखिए]

भाग-1 मतपत्र लेखा

निर्वाचन क्षेत्र से

के लिए निर्वाचन

सभा खंड का नाम—

(संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन की वशा में)

मतदान केन्द्र का संख्यांक और नाम—

क्रम संख्यांक

कुल संख्या

से

तक

1. प्राप्त मतपत्र

2. उपयोग में न लाए गए मतपत्र (अर्थात् जो मतवाताओं को नहीं दिए गए हैं)---

(क) जिन पर पीठासीन आफिसर के हस्ताक्षर हैं।

(ख) जिन पर पीठासीन आफिसर के हस्ताक्षर नहीं हैं।

\*जोड़

(क + ख)

3. \*मतदान केन्द्र में उपयोग में लाए मतपत्र

(1—2=3)

4. मतदान केन्द्रों में उपयोग में लाए गए किन्तु मतपेटी में नहीं डाले गए मतपत्र :

(क) नियम 39 के अधीन मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण के कारण रद्द किए गए मतपत्र।

(ख) अन्य कारणों से रद्द किए गए मतपत्र।

(ग) निविस्त मतपत्रों के रूप में उपयोग में लाए गए मतपत्र।

\*जोड़

(क + ख + ग)

5. मतपेटी में पाए जाने वाले मतपत्र

(3—4=5)

\* (क्रम संख्यांक देने की आवश्यकता नहीं है)

तारीख—

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

भाग 2

गणना का फल

I अभ्यर्थी का नाम	दिए गए विधिमाम्य मतों की संख्या
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
आवि	

II प्रतिक्षेपित मतपत्र

III कुल

ऊपर मद सं० III के सामने दशित मतपत्रों की कुल संख्या भाग I की मद सं० 5 के सामने दशित कुल संख्या में मेल खाती है या नहीं अथवा क्या इन दोनों योगफलों के बीच कोई फर्क पाया गया है।

स्थान—

तारीख—

स्थान—

तारीख—

गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

रिटनिंग अधिकारी के हस्ताक्षर

9. प्ररूप 16क का खोप—उक्त नियम से संलग्न प्ररूप 16क का खोप किया जाएगा।

10. प्ररूप 20 का प्रतिस्थापन—उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप 20 (अधिसूचित मतदान केन्द्रों से भिन्न मतदान केन्द्रों पर मतदान का परिणाम अभिलिखित करने के लिए यथा लागू) के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा—

“प्ररूप 20

अंतिम परिणाम पत्र

[नियम 56 (7) देखिए]

(अधिसूचित मतदान केन्द्रों से भिन्न मतदान केन्द्रों पर मतदान का परिणाम अभिलिखित करने के लिए उपयोग में लाया जाए।

निर्वाचन क्षेत्र में

के लिए निर्वाचन

भाग I

(संसदीय और सभा दोनों निर्वाचनों के लिए उपयोग में लाया जाए)

सभा निर्वाचन क्षेत्र/खंड में निर्वाचकों की कुल संख्या—

सभा खंड का नाम (संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन की वण में)——

मतदान केन्द्र की क्रम सं०	निम्नलिखित के पक्ष में दिए गए विधिमाम्य मतों की संख्या	कुल विधिमाम्य मत	प्रतिक्षेपित मतों की संख्या	योग	निर्वाचन मतों की संख्या
	क	ख	ग		

(1)

(2)

(3)

आवि

मतदान केन्द्रों पर अभिलिखित मतों की कुल संख्या

उक्त मतपत्रों पर अभिलिखित मतों की संख्या

(सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन  
की दशा में भरा जाए)

बाले गए कुल मत

स्थान—

तारीख—

रिटनिंग आफिसर

## भाग II

(केवल संसदीय निर्वाचन के लिए उपयोग में लाया जाए)

सभा खंड का नाम	निम्नलिखित के पक्ष में दिए गए विधिमाम्य मतों की संख्या	कुल विधिमाम्य मत	प्रतिशेषित मतों की संख्या	योग	निविदित मतों की संख्या
	क	ख	ग		
1.					
2.					
3.					
आदि					
कुल					
आक मतपत्रों पर अभिलिखित मतों की संख्या					
कुल जोड़					
स्थान—					
तारीख—					

रिटनिंग आफिसर

[सं० का० 7(26)/79 विधायी II]

ई० वेंकटेश्वरन्, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 1979

**S.O. 518(E).**—In exercise of the powers conferred by section 169 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Central Government, after consulting the Election Commission, hereby makes the following rules further to amend the Conduct of Elections Rules, 1961, namely :—

1. Short title.—These rules may be called the Conduct of Elections (Amendment) rules, 1979.
2. Amendment of rule 38.—In rule 38 of the Conduct of Elections, Rules, 1961 (hereinafter referred to as the said rules)—
  - (a) in sub-rule (2),—
    - (i) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely :—
 

“(b) obtain the signature or thumb impression of that elector on the said counterfoil; and;”
    - (ii) the following proviso shall be added at the end, namely :—
 

“Provided that no ballot paper shall be delivered to an elector unless he has put his signature or thumb impression on the counterfoil of that ballot paper.”;
  - b) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely :—
 

“(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2) of rule 2, it shall not be necessary for any presiding officer or polling officer or any other officer to attest the thumb impression of the elector on the counterfoil.”
3. Amendment of rule 49.—In rule 49 of the said rules, in sub-rule 3 clause (h) shall be omitted.
4. Amendment of rule 55.—In rule 55 of the said rules,—

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(1) The returning officer may have the ballot box or boxes used at more than one polling station opened and the ballot papers found in such box or boxes counted simultaneously.”;

(b) sub-rule (1A) shall be omitted.

5. Amendment of rule 56.—In rule 56 of the said rules,—

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

“(1) The ballot papers taken out of each ballot box shall be arranged in convenient bundles and scrutinized.”;

(b) for sub-rule (7), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(7) After the counting of all ballot papers contained in all the ballot boxes used at a polling station has been completed,—

(a) the counting supervisor shall fill in and sign Part II—Result of Counting, in Form 16, which shall also be signed by the returning officer; and

(b) the returning officer shall make the entries in a result sheet in Form 20 and announced the particulars.”;

(c) the Explanation at the end shall be omitted.

6. Amendment of rule 57.—In rule 57 of the said rules, after clause(a), the following clause shall be inserted, namely :—

“(b) the particulars of the polling station where the ballot papers have been used; and”.

7. Amendment of rule 59.—In rule 59 of the said rules, in sub-rule (7) of rule 56A applicable in relation to notified polling stations in lieu of rule 56, in clause (a), for the word, figures and letter “Form 16A”, the word and figures “Form 16” shall be substituted.

8. Substitution of Form 16.—For form 16 appended to the said rules, the following form shall be substituted, namely :—

#### “FORM 16”

[See rules 45, 56(7) and 56A(7)]

#### PART I — Ballot Paper Account

Election to the.....from the.....Constituency  
Name of Assembly Segment.....  
(in the case of election from a  
Parliamentary Constituency).  
No. and Name of Polling Station .....

	Serial Nos.		Total Nos.
	From	To	
1. Ballot papers received.			
2. Ballot papers unused (i.e. not issued to voters)—			
(a) With the Signature of Presiding Officer.			
(b) Without the signature of Presiding Officer.			
	Total :		
	(a + b)		
3. *Ballot papers used at the Polling Station			
(1—2 = 3)			
4. Ballot papers used at the polling stations but NOT INSERTED INTO THE BALLOT BOX :			
(a) Ballot papers cancelled for violation of voting procedure under rule 39.			
(b) Ballot papers cancelled for other reasons.			
(c) Ballot papers used as tendered ballot papers.			
	*Total :		
	(a + b + c—)		

5. \*Ballot papers to be found in the ballot box.  
(3—4 = 5)

\*(Serial numbers need not be given)

Date.....

Signature of the Presiding Officer

## PART II

## Result of Counting

I. Name of candidate	Number of valid votes cast
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
etc.	

## II. Rejected Ballot Papers

## III. TOTAL

Whether the total number of ballot papers shown against item No. III above tallies with the total shown against item No. 5 of Part I or any discrepancy noticed between these two totals.

Place.....

Signature of the Counting Supervisor

Date.....

Signature of the Returning Officer".

Place.....

Date.....

9. Omission of Form 16A.—Form 16A appended to the said rules shall be omitted.

10. Substitution of Form 20.—For form 20 (as applicable for recording the result of voting at polling stations other than notified polling stations) appended to the said rules, the following form shall be substituted:—

## "FORM 20

## Final Result Sheet

[See rule 56(7)]

(To be used for recording the result of voting at polling stations other than notified polling stations)

Election to the.....

from the..... Constituency.

## PART I

(To be used both for Parliamentary and Assembly elections)

Total No. of.....

Electors in Assembly Constituency/

Name of the Assembly segment (in the case of election from a Parliamentary constituency) .....

segment

Serial No. of Polling Station	No. of valid votes cast in favour of			Total of valid votes	No. of rejected votes	Total	No. of tendered votes
	A	B	C				
(1)							
(2)							
(3)							
etc.							

Total No. of votes  
recorded at Polling  
Stations.

No. of votes recorded on postal ballot papers  
(To be filled in the case of election from an  
Assembly Constituency).

Total votes polled

Place.....

Returning Officer

Date.....

## PART II

[To be used for a Parliamentary election only].

Name of Assembly segment	No. of valid votes cast in favour of			Total of valid votes	No. of rejected votes	Total	No. of tendered votes
	A	B	C				
1.							
2.							
3.							
4.							
etc.							
Total							
No. of votes recorded On Postal ballot papers							
GRAND TOTAL							

Place.....

Date.....

Returning Officer."  
[No.F.7(26)/79-Leg.II]  
E. VENKATESWARAN, Jt. Secy.

